

लाज | By Sanjeev Sharma

थां बिन म्हारी श्याम कुण लाज बचावे रे
लाज बचावे रे श्याम कुण हिवड़े लगावे रे

नाव है छोटी छोटी माझी खाये रयो हिचकोले
कटे छिप्यो है श्याम बिहारी क्यों ना अँखियाँ खोले
मुझ गरीब की नैया ने कुण पार लगावे रे

तेरो टाबर होकर कान्हा क्यों इतना दुःख पाऊं
जितना सताले जी माँ थारी चौखट से ना जाऊं
ओम की साँची प्रीत को यो यो ही न्याय चुकावे रे

<https://bhaktivandana.com/lyrics/%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%9c-by-sanjeev-sharma/>